

भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
रक्षा विभाग
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 46

14 सितम्बर, 2020 को उत्तर के लिए

देश में सैनिक विद्यालय

46. डा. सांतनु सेन:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) वर्तमान में देश में कार्यरत सैनिक विद्यालयों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या का ब्यौरा क्या है;
- (ख) विगत पांच वर्षों के दौरान इन विद्यालयों के लिए आवंटित, जारी और इनके द्वारा उपयोग की गई धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) देश में स्थापित किए जाने वाले नए सैनिक विद्यालयों का ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार का पश्चिमी बंगाल राज्य में नए सैनिक विद्यालय की स्थापना करने का विचार है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद नाईक)

(क): देश में 33 सैनिक स्कूल चल रहे हैं। देश में सैनिक स्कूलों के राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार ब्यौरे अनुबंध-1 पर दिये गए हैं।

(ख): विगत पांच वर्षों के दौरान सैनिक स्कूलों को दी गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे निम्नवित हैं:-

वित्तीय वर्ष	आवंटित/इस्तेमान किया गया बजट
2015-16	74.94 करोड़
2016-17	81.38 करोड़
2017-18	80.00 करोड़
2018-19	84.22 करोड़
2019-20	40.40 करोड़

(ग): देश में स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित नये सैनिक स्कूलों के ब्यौरे अनुबंध-॥ पर दिये गए हैं।

(घ) और (ङ): पश्चिम बंगाल राज्य में एक सैनिक स्कूल पुरुलिया जिले में है। इसके अतिरिक्त, दार्जिलिंग में एक सैनिक स्कूल की स्थापना हेतु सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया। इस बारे में, आज की तारीख तक पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

अनुबंध-1

देश में सैनिक स्कूलों की सूची(राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश वार) के बारे में राज्य सभा में दिनांक 14 सितम्बर, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 46 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

क्र. सं.	स्कूल का नाम	राज्य
1.	सैनिक स्कूल कुरुकोंडा	आन्ध्र प्रदेश
2.	सैनिक स्कूल कलीकीरी	
3.	सैनिक स्कूल गोलपारा	असम
4.	सैनिक स्कूल नालंदा	बिहार
5.	सैनिक स्कूल गोपालगंज	
6.	सैनिक स्कूल अंबिकापुर	छत्तीसगढ़
7.	सैनिक स्कूल बालाचढ़ी	गुजरात
8.	सैनिक स्कूल कुंजपारा	हरियाणा
9.	सैनिक स्कूल रेवाड़ी	
10.	सैनिक स्कूल सुजानतीरा	हिमाचल प्रदेश
11.	सैनिक स्कूल नगरौटा	जम्मू और कश्मीर
12.	सैनिक स्कूल तिल्लैया	झारखंड
13.	सैनिक स्कूल बीजापुर	कर्नाटक
14.	सैनिक स्कूल कोडगू	
15.	सैनिक स्कूल काजाकोट्टम	केरल
16.	सैनिक स्कूल रीवा	मध्य प्रदेश
17.	सैनिक स्कूल सतारा	महाराष्ट्र
18.	सैनिक स्कूल चन्द्रपुर	
19.	सैनिक स्कूल इम्फाल	मणिपुर
20.	सैनिक स्कूल झिंगझिप	मिजोरम
21.	सैनिक स्कूल पुंगलवा	नागालैण्ड
22.	सैनिक स्कूल भुवनेश्वर	ओडिशा
23.	सैनिक स्कूल संभलपुर	
24.	सैनिक स्कूल कपूरथला	पंजाब
25.	सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़	राजस्थान
26.	सैनिक स्कूल झुंझनू	
27.	सैनिक स्कूल अमरावती नगर	तमिलनाडु
28.	सैनिक स्कूल घोड़ाखाल	उत्तराखंड
29.	सैनिक स्कूल पुरुलिया	पश्चिम बंगाल
30.	सैनिक स्कूल पूर्वी सियांग	अरुणाचल प्रदेश
31.	सैनिक स्कूल मैनपुरी	उत्तर प्रदेश
32.	सैनिक स्कूल झांसी	
33.	सैनिक स्कूल अमेठी	

अनुबंध-II

देश में सैनिक स्कूलों की सूची(राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश वार) के बारे में राज्य सभा में दिनांक 14 सितम्बर, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 46 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण:

क्रम सं.	राज्य	स्थान	स्थिति
1.	राजस्थान	अलवर	एमओए पर हस्ताक्षर किए गए
2.	उत्तराखंड	रूद्रप्रयाग	एमओए पर हस्ताक्षर किए गए
3.	तेलंगाना	वारंगल	एमओए पर हस्ताक्षर किए गए
4.	पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग	सैद्धांतिक अनुमोदन के पश्चात एमओए हस्ताक्षर के लिए राज्य सरकार के पास लम्बित है।
5.	असम	गोलाघाट	सैद्धांतिक अनुमोदन के पश्चात एमओए हस्ताक्षर के लिए राज्य सरकार के पास लम्बित है।
6.	झारखंड	गोड्डा	सैद्धांतिक अनुमोदन के पश्चात एमओए हस्ताक्षर के लिए राज्य सरकार के पास लम्बित है।
7.	मध्यप्रदेश	भिंड	सैद्धांतिक अनुमोदन के पश्चात एमओए हस्ताक्षर के लिए राज्य सरकार के पास लम्बित है।

8.	असम	कोकराझार	सैद्धांतिक अनुमोदन के पश्चात एमओए हस्ताक्षर के लिए राज्य सरकार के पास लम्बित है।
----	-----	----------	--
